



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2016/पौष 8, 1938
No. 376] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2016/PAUSA 8, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2016

संख्या 48/2015-2020

विषय:— विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के अध्याय 3 के तहत खेपों के लिए जहां एलईओ तारीख 31.03.2015 तक है परन्तु निर्यात की तारीख 01.04.2015 अथवा उसके पश्चात है, शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स का दावा करने के लिए प्रक्रिया।

फा. सं. 01/61/180/88/एम 16/पीसी-3.—विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैराग्राफ 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा एफटीपी 2009-14 के अध्याय 3 के तहत खेपों के लिए जहां एलईओ तारीख 31.03.2015 तक है, परन्तु निर्यात की तारीख 01.04.2015 अथवा उसके पश्चात है, शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स का दावा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अधिसूचित करते हैं।

2. एफटीपी 2009-14 के तहत अध्याय 3 के लाभों का दावा करने के लिए किसी मद की पात्रता एचबीपी, 2009-14 के पैरा 9.12 के साथ पठित एचबीपी के पैरा 3.8.1(ग), 3.9.1(ख) और 3.11.11(ख) के अनुसार निर्यात की तारीख के आधार पर निर्धारित की जाती थी। तदनुसार यदि निर्यात की तारीख 31.03.2015 के पश्चात थी, तो यह एफटीपी, 2009-14 के तहत अध्याय 3 के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।

3. एफटीपी 2015-20 के तहत अध्याय 3 के लाभों का दावा करने के लिए किसी मद की पात्रता एचबीपी, 2015-20 के पैरा 9.12 (घ) के साथ पठित पैरा 2.17 (ख) के अनुसार निर्यात अनुमति आदेश (एलईओ) की तारीख के आधार पर निर्धारित की जाती है। तदनुसार, यदि एलईओ तारीख 31.03.2015 अथवा उससे पूर्व है, तो यह एफटीपी 2015-20 के तहत एमईआईएस लाभ के लिए पात्र नहीं है।

4. विभिन्न ओपन हाउस बैठकों में यह प्रश्न उठाए गए हैं और इस निदेशालय में पत्र प्राप्त हुए हैं कि उन निर्यात खेपों के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिए जाएं जहां एलईओ तारीख 31.03.2015 से पूर्व थी और निर्यात की तारीख 01.04.2015 अथवा उसके पश्चात थी।

5. इस मुद्दे की राजस्व विभाग के परामर्श से जांच की गई है। इस संबंध में प्रक्रिया पुस्तक 2009-14 के पैराग्राफ 9.12 के अंतिम पैराग्राफ को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है:—

“तथापि जहां कहीं प्रक्रिया संबंधी/नीतिगत प्रावधानों के संशोधनों से निर्यातकों को नुकसान हो रहा है, यह जांच के लिए सीमाशुल्क को सौंपे जा चुके खेपों और बाद में सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना की तारीख तक हुए निर्यातों पर लागू नहीं होगा।

6. उपर वर्णित एचबीपी 2009-14 के पैरा 9.12 में प्रावधान को देखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि खेपों जहाँ एलईओ तारीख 31.03.2015 अथवा उससे पूर्व है परंतु निर्यात की तारीख 01.04.2015 अथवा उसके पश्चात है, को अध्याय 3 के लाभों के समान लाभ दिया जाएगा जैसा कि एफटीपी 2009-14 में उपलब्ध था। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी मामलों में एलईओ तारीखों को निर्यात की तारीख माना जाएगा।

7. इस सार्वजनिक सूचना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को 31 मार्च, 2017 तक प्रस्तुत किए जाने हैं और ऐसे सभी मामलों में एचबीपी (2009-14) के पैरा 9.3 के अंतर्गत विलंब शुल्क लागू नहीं होगा। तथापि 31 मार्च, 2017 के बाद प्राप्त आवेदनों पर एचबीपी (2009-14) के पैरा 9.3 के अधीन यथा लागू विलंब शुल्क देना होगा।

8. उपरोक्त निर्णय को लागू करने हेतु एलईओ तारीख को निर्यात की तारीख के रूप में परिवर्तन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन माड्यूल में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: एफटीपी 2009-14 के अध्याय 3 के लाभ का निर्यात के लिए दावा करने की प्रक्रिया, जहाँ एलईओ तारीख 31.03.2015 है परंतु निर्यात की तारीख 01.04.2015 अथवा उसके पश्चात है, अधिसूचित की जाती है।

ए. के. भल्ला, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th December, 2016

No. 48/2015-2020

Subject: Procedure for claiming Duty Credit Scrips under Chapter 3 of FTP 2009 -14 for shipments where LEO date is upto 31.03.2015 but date of export is on or after 01.04.2015.

F. No. 01/61/180/88/AM16/PC-3.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), the Director General of Foreign Trade hereby notifies the following procedure for claiming Duty Credit Scrips under Chapter 3 of FTP 2009 -14 for shipments where LEO date is upto 31.03.2015 but date of export is on or after 01.04.2015.

2. For claiming Chapter 3 benefits under FTP 2009-14, eligibility of an item was determined on the basis of **date of export** as per Paras 3.8.1(c), 3.9.1(b) and 3.11.11(b) of HBP read with Para 9.12 of HBP, 2009-14. Accordingly, if the date of export was after 31.03.2015, it would be ineligible for Chapter 3 benefit under FTP, 2009-14.

3. For claiming Chapter 3 benefits under FTP 2015-20, eligibility of an item is determined on the basis of date of **Let Export Order (LEO) as per Para 2.17(b)** read with Para 9.12(D) of the HBP, 2015-20. Accordingly, if LEO date is on or prior to 31.03.2015, it is not eligible for MEIS benefit under the FTP 2015-20.

4. Questions have been raised in various Open House Meetings as well as references have been received by this Directorate as to the treatment to the export consignments where **LEO** date was prior to 31.03.2015 and **Date of Export** was on or after 01.04.2015.

5. The issue has been examined in consultation with the Department of Revenue. In this regard, the last sub-Para within Para 9.12 of the Handbook of Procedure 2009-14 is reproduced below:

“However, wherever Procedural/Policy provisions have been modified to disadvantage of exporters, same shall not be applicable to consignments already handed over to Customs for examination and subsequent exports upto Public Notice / Notification date.

6. In view of the provision in Para 9.12 of HBP 2009-14 as stated above, it is clarified that the shipments, where the LEO date is on or prior to 31.03.2015, but the Date of Export is on or after 01.04.2015, shall be incentivized with the Chapter 3 benefits as was available in the FTP 2009-14. It is also clarified that in all such cases, the LEO date shall be treated as date of export.

7. Applications for availing benefit under this Public Notice are to be filed with RAs concerned by 31 March, 2017 and in all such cases Late Fee under Para 9.3 of HBP (2009-15) will not be applicable. However, applications received after 31 March, 2017 will be subject to Late Fee as applicable under Para 9.3 of HBP (2009-14).

8. Necessary changes in the online application module have been made to change the LEO date as the Date of Export giving effect to the above decision.

Effect of this Public Notice: The procedure for claiming Chapter 3 benefits of FTP 2009-14 for exports where LEO date is upto 31.03.2015 but date of export is on or after 01.04.2015 is notified.

A. K. BHALLA, Director General of Foreign Trade